

प्रेस विज्ञप्ति थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर दिनांक 15.11.2022

विदेश भेजने के नाम पर कूटरचित दस्तावेज द्वारा धोखाधड़ी कर रुपया गबन करने के आरोप में दो अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा जनपद में होने वाले अपराधो पर रोकथाम/ अंकुश लगाये जाने तथा सम्बन्धित अभियुक्तो के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के कुशल मार्गदर्शन व नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा मय थाने की पुलिस टीम बनाकर लगायी गयी थी। विदेश भेजने के नाम पर पैसा लेकर कूटरचित टिकट आदि देने के सम्बन्ध मे थाना गुलरिहा पर मु0अ0सं0 701/22 धारा 420,467,468,471,406 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसके क्रम मे विदेश भेजने के नाम पर मोटी रकम लेकर कूटरचित दस्तावेज तैयार करने वाले दो अभियुक्तों 1.अजीम खाँ पुत्र अमीन खाँ निवासी तरकुलवां परतावल थाना श्यामदेउरवा जनपद महाराजगंज 2. गुफरान पुत्र बहाउद्दीन निवासी छातीराम थाना श्यामदेउरवा जनपद महाराजगंज को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- अभियुक्त अजीम अपना नाम बदलकर प्रिन्स बताकर विदेश भेजने के नाम पर आनलाईन पैसा मंगवाकर मोटी रकम हड़प कर अपने सहअभियुक्त गुफरान की मदद से उसकी दुकान सेवन स्टार प्रिन्टिंग प्रेस से हवाई यात्रा की कूटरचित टिकट कम्प्यूटर से एडीट कर बनवाकर लोगो को देना व अभियुक्त अजीम द्वारा स्वयं भी अपना कूटरचित आधार कार्ड प्रिन्स के नाम से बनवाकर ठगी के कार्य मे उपयोग में लेना।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम, पता व आपराधिक इतिहास -

1.अजीम खाँ पुत्र अमीन खाँ निवासी तरकुलवां परतावल थाना श्यामदेउरवा जनपद महाराजगंज

I- मु0अ0सं0 062/21 धारा 419,420,467,468,471,504,506 भादवि थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर।

II- मु0अ0सं0 439/17 धारा 406,419,420,467,468,471 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।

III- मु0अ0सं0 701/022 धारा 420,467,468,471,406 भादवि0 थाना गुलरिहा गोरखपुर।

2. गुफरान पुत्र बहाउद्दीन निवासी छातीराम पोस्ट परतावल थाना श्यामदेउरवा जनपद महाराजगंज

I- मु0अ0सं0 701/022 धारा 420,467,468,471,406 भादवि0 थाना गुलरिहा गोरखपुर,

बरामदगी का विवरण-

- 1.तीन अदद कूटरचित हवाई यात्रा टिकट की प्रति
2. दो अदद कूटरचित आधार कार्ड
- 3.एक अदद कलर्ड प्रिन्टर
- 4.एक अदद सीपीयू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम-

1. निरीक्षक मनोज कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।
2. उ0नि0 शेष कुमार शर्मा थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।
3. उ0नि0 हिमांशी पाण्डेय थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।
4. का0 मिथिलेश कुमार थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।